

09 December 2022

Department of Corporate Services/ Listing, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

Co. Name: Trinity League India Limited

Code No.: 531846

Sub: Newspaper Publication of Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith newspaper publication(s) of Notice of Extra Ordinary General Meeting (EGM) published in the News Paper - Financial Express and Jansatta dated 09.12.2022.

Yours faithfully

For Trinity League India Limited

Piyush Kumar Srivastava

fin lem

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

Regd. Office: A 23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK-II, New Delhi-110019
Corporate Office: "Trinity Tower", B-2, Sector-7, Noida 201301 (U.P.),
Ph: 0120-4712800, 4712802, - Email: trinityleague@trinitygroup.ind.in

Website: www.trinitygroup.ind.in CIN NO. L93000DL1988PLC031953

DATED: 02/12/2022

]... Certificate Holders

]... Certificate Debtors

REGD.A/D/DASTI/AFFIXATION/BEAT OF DRUM &

PUBLICATION/NOTICE BOARD OF DRT

SALE PROCLAMATION

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, MUMBAI

MTNL Bhavan, 3rd Floor, Colaba Market, Colaba, Mumbai.

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND

SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE

RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993.

CD - 1 : M/s. Agile Trading & Investment Pvt. Ltd., a private limited company having its registered office at

CD-3:Mr.Shiv Kumar Yadav, residing at 96/3, Himayunpur, Safdarjung Enclave, New Delhi 110 029

CD-4:Mr. Pawan Kumar Yadav, residing at 1'1 Floor, Kiran Nursing Home, Near Bus Stand, Kishangarh 305 801

Whereas Hon'ble Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal No. II Mumbai has drawn up the

Recovery Certificate in Original Application No. 150 of 2014 for recovery of Rs.10,02,85,664.00 with

interest from the Certificate Debtors and a sum of Rs. 40,57,57,995.00 (upto the date of sale i.e. 17.01.2023)

And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in

And whereas a sum of Rs. 10,02,85,664.00 along with pendent-lite and further interest @ 15.75%

p.a. with monthly rests from the date of filing of application i.e. 13.02.2014 till payment and/or

Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold on

17.01.2023 between 02:00 PM to 03:00 P.M. (with auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before

closing, if required) by e-auction and bidding shall take place through "On line Electronic Bidding"

through the website of M/s e-procurement Technologies Ltd, https://drt.auctiontiger.net having address at B-704, Wall Street-II, Opp Orient Club, Near Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad 380 006,

Gujarat (India) Phone Nos. 079-68136841 /55 /51, 079-68136800. Contact Person : Mr.

Praveenkumar Thevar (Mobile +91 9722778828). Email address - praveen.thevar@auctiontiger.net

The sale will be of the property of the C.D above named as mentioned in the schedule below and the

liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained , are those

The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is

satisfied by the sale of a portion of the property, the sale-shall be immediately stopped with respect to the

remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mention ed in the said

certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof

is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the

No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, either directly or indirectly

bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the

conditions prescribed in Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under

The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the

undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this

The reserve price below which the property shall not be sold is Rs. 3,79,44,000/- (Rupees Three

The amount by which the bid is to be increased shall be Rs. 3.00.000/ (Rupees Three Lakhs only). In

the event of any dispute arising as to the amount of bid , or as to the bidder, the lot shall at once be

The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot. It shall be in the discretion of the

undersigned to decline/acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly

The public at large is hereby invited to bid in the said E-Auction. The offers in a sealed envelope along with demand draft! pay order of any Nationalized Bank/Scheduled Bank along with EMD Amount Rs. 37,94,400/- (Rupees Thirty Seven Lakhs Ninety Four Thousand Four Hundred only) should

be deposited with the undersigned not later than by 4.30 p.m. on 12.01,2023. The demand draft I pay

order should be drawn in favour of the "Recovery Officer, DRT-II, Mumbai in R.P No.61 of 2018. The

above amount/demand draft/gay order shall be refunded to the unsuccessful bidders after due

Attested photocopy of TAN/PAN card, Address Proof, Demand Draft/ Pay Order shall be uploaded

with the online offer. The last date for submission of online offers alongwith EMD and the other

information/details is 12.01.2023 by 4.30 p.m. The Physical inspection of the properties may be taken

The copy of PAN card, Address proof and identity proof, E-mail ID, Mobile No. and declaration if they

are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. In the latter case, they shall be required

to deposit their authority and in default their bids shall be rejected. In case of the company copy of

resolution passed by the board members of the company or any other document confirming

For further details contact: Mr Anil Kumar Singh, Asstt General Manager, Mobile: 9930332386.

is recoverable together with further interest and charges as per the Recovery Certificate / Decree.

27, Cine Wonder Mall, Ground Floor, Kapurbavdi Ghodbunder Road, Thane (West) 400 610

CD-2: Mr. Pradeep Paliwal, residing at B-9/13, Vasant Vihar, New Delhi 110 057

Ow No. MDRT-907/2022

Bank of Baroda, Bandra (E) Branch

satisfaction of the said certificate.

or support@auctiontiger.net.

and to the further following conditions.

again put up to auction.

Crores Seventy Nine Lakhs Forty Four thousand only)

inadequate as to make it inadvisable to do so.

verification I submission of KYC documents.

specified in the schedule against each lot I property.

realization from CDs.

M/s Agile Trading & Investments Pvt Ltd & Ors

Date: 06/12/2022

R.P. No. 61/2018

## **FINANCIAL EXPRESS**

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015. (Haryana) and Branch Office at:- Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi and Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plot No. C -1, Sector - 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh -201010 and A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/less pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Borrower(s) /	Demand Notice	Description of the Immovable	Date of Physical Possession	Reserve Price	Date of Inspection	
Co-Borrower(s)	Date and Amount	property/ Secured Asset	25-Nov-2022	Rs.40,00,700/-	of property	
/Guarantor(s) 1. Mrs. Vandana	29-May-2018 Rs.34,84,643/- (Rupees	All that part and parcelof the property bearingUnit No Wf-	Total Outstanding As On Date 29-Nov-22	(Rupees Forty Lakh Seven Hundred Only)	06-Jan-2023 1100 hrs -1400 hrs	
Khanna	Thirty Four Lakh Eighty	178,Ground Floor, super built up	10. Industry (10.)	Earnest Money	EMD Last Date	
<ol><li>Ms. Vaishali Khanna</li></ol>	Four Thousand Six Hundred Forty Three Only)	area admeasuring 1400 sq. ft. Water Side Floors Phase 1, Lake	Rs. 36,90,800/- (Rupees Thirty Six Lakh	Deposit (EMD)	09-Jan-2023 till 5 pm.	
3. M/s. Ocean	Bid Increase Amount	Grove , Kundali, Sonipat, ,Haryana-	Ninety Thousand Eight Hundred Only)	Rs.4,00,070/-	Date/ Time of E- Auction	
(Prospect No 735966)	Rs.40,000/- (Rupees Forty Thousand Only)	131001	Hundred Only)	(Rupees Four Lakh Seventy Only)	11-Jan-2023 1100 hrs-1300 hrs.	
1. Mr. Alok	13-Dec-2019 All that part and parcelof the Date of Physical Possession Reserve Price		06-Jan-2023			
Kumar	Fifty Eight Lakh Forty Eight Thousand Eighty	property bearing Unit No. WF-35	25-Nov-2022	Rs.55,19,800/- (Rupees Fifty	1100 hrs -1400 hrs	
Sinha (Prospect No		Duplex, 4th Floor, Area admeasuring 1850 sq. ft.,	Total Outstanding	Five Lakh Nineteen Thousand	EMD Last Date	
			As On Date 29-Nov-22	Eight Hundred Only)	09-Jan-2023	
	Three Only)	Waterside Floors, Luxury In Like	Rs. 63,23,513 /- (Rupees L	Earnest Money Deposit (EMD)	till 5 pm.	
738323)	Bid Increase Amount	Grove City, Kundli Sonipat Haryana -122001		Rs. 5,51,980/- (Rupees Five	Date/ Time of E- Auction	
	Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)	-122001	Three Thousand Five Hundred Thirteen Only)	Lakh Fifty One Thousand Nine Hundred Eighty Only)	11-Jan-2023 1100 hrs-1300 hrs.	
1. Mrs.	10-Dec-2019	All that part and parcelof the	Date of Physical Possession	Reserve Price	06-Jan-2023 1100 hrs -1400 hrs	
Hatneingah	Rs. 53,78,607/- (Rupees	property bearing Unit No. WF-155	25-Nov-2022	Rs.51,62,400/-(Rupees Fifty		
Hadkip	Fifty Three Lakh Seventy	,Built up area admeasuring 1400 sq.	Total Outstanding	One Lakh Sixty Two	EMD Last Date	
	Eight Thousand Six Hundred Seven Only)	ft., Ground Floor, Waterside Floors Luxury In Lake Grove City, Kundli,	As On Date 29-Nov-22 Rs. 58,27,798/- (Rupees	Thousand Four Hundred Only)	09-Jan-2023 till 5 pm.	
744037)	Bid Increase Amount	Sonepat, Haryana 131028.	Fifty Eight Lakh Twenty	Earnest Money Deposit (EMD)	Date/ Time of E- Auction	
	Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)		Seven Thousand Seven Hundred Ninety Eight Only)	Rs.5,16,240/- (Rupees Five Lakh Sixteen Thousand Two Hundred Forty Only)	11-Jan-2023 1100 hrs-1300 hrs.	

details are as follows: a) Name of the Account:- IFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879 followed by Loan Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001 e) Bank Address; Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001

For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in advance and has

Place: Sonipat

Date: 09-Dec-2022

- to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing
- time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment.

The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other

- incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iiffl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and
- conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:-support@bankeauctions.com, Support
- Helpline Numbers:@7291981124/25/26. For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 or write to email:- auction.hi@iifi.com
- Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.
- Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
- In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.
- 11. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in

tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final. STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which

the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Sd/-Authorised Officer,

IIFL Home Finance Limited

Corporate Office at Plot No.98,Udyog Vihar, Phase-IV,Gurgaon-122015.(Háryana) and Branch Office at:- Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") or IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued Ú/S 13(2) of the Act in the following loar accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com. Borrower(s) / Demand Notice Date | Description of the Immovable property/ Date of Physical Date of Inspection of

Public Notice For F-Auction For Sale Of Immovable Probetiles

/Guarantor(s)	and Amount	Secured Asset	Possession	Price	property
1. Mr. Manish Kumar 2. M/S King 3. Mrs. Sheetu	12-May-2021 Rs.6,18,605.00/- (Rupees Six Lakh Eighteen Thousand Six Hundred Five Only )	All That Part And Parcel Of The Property Bearing Unit No-31, Admeasuring Super Area Of 407.31 Sq.Feet, Ground Floor,	Total Outstanding As On Date 29-Nov-22 Rs. 5,47,983/-	Only)	06-Jan-2023 1100 hrs -1400 hrs Mr.Viral Gala @7303021217
Verma	Bid Increase Amount Rs.25,000/- (Rupees	Commercial Block-A Omaxe Plaza, Sector-8, Village Rewli, Kumaspur,	(Rupees Five Lakh Forty Seven	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,76,000/-(Rupees	EMD Last Date 09-Jan-2023 till 5 pm. Date/ Time of E Auction
(Prospect No 836706)	Twenty Five Thousand Only)	Shahpur Turk & Raipur, Sonipat, Haryana 131001	Hundred Eighty Three Only)	One Lakh Seventy Six Thousand Only)	11-Jan-2023 1100 hrs-1300 hrs
1. Mrs. Kavita Yadav 2. Mr.Ramesh Kumar Yadav 3. Tej Service	23-Dec-2020 Rs.25,14,256.00/- (Rupees Twenty Five Lakh Fourteen thousand two hundred and fifty six	All that part and parcel of the property bearing Flat No.T2/0704, having super built-up area measuring	25-Nov-2022 Total Outstanding As On Date 29-Nov-22	Rs.21,60,000/- ( Rupees Twenty One Lakh Sixty Thousand Only)	06-Jan-2023 1100 hrs -1400 hrs Mr.Jay @9910999001 EMD Last Date
Station (Prospect No	only )  Bid Increase Amount	1590 sq ft Lake Side Heights, Lake Grove City, Kundali, Sonipat, Haryana.	(Rupees Twenty Four	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,16,000/-	09-Jan-2023 till 5 pm.
725571)	Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)		Thousand One Hundred Eighty Three Only)	(Rupees Two Lakh Sixteen Thousand Only)	Date/ Time of E Auction 11-Jan-2023 1100 hrs-1300 hrs.
accounts details a	re as follows: : a) Name of t		ance Ltd., b) Name of t	he Bank:- Standard Cha	m or through RTGS/ NEFT The rtered Bank, c) Account No:-

9902879 followed by Loan Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001 e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001 TERMS AND CONDITIONS: For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in advance

and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes

- of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment
- The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings
- For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- support@bankeauctions.com Support Helpline Numbers: @7291981124/25/26.and any property related query Mr. Jitendra Gupta @ 9999682823, Email :-jitendra.gupta1@iifl.com,
- Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.

Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.

10. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date o

Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited Place:-Sonipat, Date: 09-Dec-2022

Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1) and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Securit Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of pow ers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any deal ings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon."The borrower's attention is invited to provisions sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed

	assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall	ll be taken by <b>"IIFL HFL"</b> for transfer o	r sale of the se	ecured asset
Name of the Borrower(s) /Co-Borrower(s)	Description of the Secured Asset (Immovable Property)  All that piece and parcel of:::Plot.No.23-A/1, 1St Floor Front Side,	Total Outstanding Dues (Rs.) Rs.25,65,069/-	Demand	Date of Posses
Mr. Vikram Singh Rawat Mrs.Vineeta Rawat (Prospect No IL10198601)	Out of Khasra No. 104/1, Raja Puri, Land area admeasuring 540 Sq. Ft., Village Palam, Uttam Nagar, Block-A-1, West Delhi, Delhi, India, 110059.	(Rupees Twenty	Notice 26-Sep- 2022	96-Dec- 2022
Mr.Aman, Mrs.Bharti, Mr. Ravinder Singh, Shree Dayal Textile(Prospect No IL10143123)	All that piece and parcel of : Plot No 29A And 30 A, admeasuring 540 sq. ft., Third Floor, Khaera No 38/10, Press Enclave Part -II, Vikas Nagar Uttam Nagar New Delhi - 110059		27-Sep- 2022	06-Dec- 2022
Mrs. Manisha Singh, Mr.Babloo Kumar, Chandrayan Dental Clinic (Prospect No IL10087814)	All that piece and parcel of : . : Flat No 911, Carpet area admeasuring 224 Sq. Ft., land area admeasuring 280 Sq. Ft., Type-A Block-D Pocket-3 Bindapur Dwarka , West Delhi, Delhi, India, 110059.	Rs.41,94,709/- (Rupees Forty One Lakh Ninety Four Thousand Seven Hundred Nine Only)	26-Sep- 2022	06-Dec- 2022
Mr. Virendra Singh Mrs. Bharti Devi (Prospect No IL10018666)	All that piece and parcel of : 3rd Floor(i.e. H. No. TF-B4) with Roof Rights built on Plot bearing Pvt. No. 3, adm. 70 Sq. Yds. i.e. 58.52 Sq. Mtrs., Khasra No. 874/1, Min Extended, Lal Dora, Village Sant Nagar, Burari, North Delhi, India-110059	Rs.25,51,639/- (Rupees Twenty Five Lakh Fifty One Thousand Six Hundred Thirty Nine Only)	26-Apr- 2022	06-Dec- 2022
Mr.Rohit Kumar, Mr.Atul Kumar Mrs.Meena Devi (Prospect No IL10010596 &IL10076121)	All That Piece And Parcel Of: Upper Ground Floor Without Roof/Terrace Rights Of Bull T Up Property Bearing No. 72- B, Area Measuring 54 Sq. Yds., I.E. 45.15 Sq. Mtrs., Out Of Khasra No. 105/24/1, Situated In The Area Of Village Palam, Delhi State Delhi, Colony Known As In Block-G, Vishwas Park, Near Gall No. 10, Raja Purl, Uttam Nagar, New Delhi-110059	Thirty One Thousand Five Hundred Nineteen Only ) for IL10010596 & Rs.5,20,482/- (Rupees Five Lakh	14-Sep- 2022	06-Dec- 2022
Mr. Rajesh Sharma Kunal Enterprises Mrs.Manju Sharma (Prospect No 933704 and 935439)	All that piece and parcel of Property Bearing- Municipal House No. 2707/202, Second Floor Without Roof Rights, Area Ad Measuring 828 Sq.Ft., Village Chowkri Mubarkabad, Onkar Nagar, Tri Nagar, Delhi, 110035, Delhi, India.	Fifteen Lakh Seventy Two Thousand Three Hundred One Only) and <b>935439 is Rs.1,10,470/-</b> (Rupees One Lakh Ten Thousand Four Hundred Seventy Only)	19-Sep- 2022	06-Dec- 2022
Mr. Vishwanath Pratap Singh, Mrs.Priti Parmar (Prospect No 906887 & 952287)	All that piece and parcel of: : Plot Bearing No. 53, admeasuring 71.5 sq. yds., 1St Floor, out of Kh. No.316, Block-C-1, Gali No. 2, Sanjay Enclave, Uttam Nagar, West Delhi, Vill. Bindapur, 110059, Delhi, India.	Lakh Twenty Seven Thousand Two	16-Sep- 2022	06-Dec- 2022
Mr. Rajeev Kumar Mrs.Shikha (Prospect No 905131 and 905431)	All that piece and parcel of Flat No. SF-C Second Floor, Total Area Ad Measuring 540 Sq.Ft., built on Plot No-78-79, Khasra No-502/1, Kh No-502/1 Samridhi Appts Shakti Enclave Lal Dora Burari, Without Terrace Roof Right, Delhi, 110084, Delhi, India	Twenty One Lakh Seventy Four Thousand Seven Hundred Fifty Four Only) & <b>905431 is Rs.1,09,250/-</b> ( Rupees One Lakh Nine Thousand Two Hundred Fifty Only)	24-Sep- 2022	06-Dec- 2022
Mr. Jagpal Mrs. Suman (Prospect No 897109 & 898348)	All that piece and parcel of : Old H.No. 314, New H.No. 202, admeasuring 900 Sq. Ft., Kh No. 126/2 Situated Within The Old Lal Dora Of Village Qutabgarh, Delhi, India-110039.	Lakh Seventy Three Thousand Two Hundred Fifty Nine Only) for 897109 & Rs.3,38,015/-(Rupees Three Lakh Thirty Eight Thousand and Fifteen Only) for 898348		06-Dec- 2022
Mr. Pramod Verma Mrs.Phulwati Mrs. Rinky Verma (Prospect No 847448 and 943739)	All that piece and parcel of:.: House No. New No. B-1071 & (Old Municipal No. 94/80), Built Up On Western Portion Of Plot Bearing No. 80, Area Measuring 50 Sq. Yds., Out Of 100 Sq. Yds., Comprised In Khasra No. 177, Situated In The Area Of Village Neemri, Garden Geuri (Shastri Nagar) Delhi Khurd Alias Tigri, 110052, Delhi, India	Thirteen Thousand Six Hundred and Ninety Nine Only) for 847448 & Rs.4,35,713/-(Rupees Four Lakh	2022	06-Dec- 2022
NA NI IZ NA		D	10.0	100.5

Mr.Naveen Kumar, Mrs. All that piece and parcel of : . : Entire 3Rd Floor With Roof Rights, Property Rs.57,98,339/- (Rupees Fifty 16-Sep-

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi OR Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Rameswari, Mrs. Sabita Bearing No 5762, area admeasuring 200 Sq. Yds. Out of Khasra No.569/274, Seven Lakh Ninety Eight Thousand (Prospect No 840051) Gali No 6 Village New Chandrawal, Jawahar Nagar, 110007, Delhi,India Three Hundred Thirty Nine Only)

r.in

Place:Delhi, Date: 09-12-2022

financialex

### ICL ORGANIC DAIRY PRODUCTS LIMITED CIN No. L74120UP2013PLC055187.

Regd. Office: A-105, 3rd Floor, Sector-63, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP - 201301

### NOTICE OF 09TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- members of ICL Organic Dairy Products Limited will be held on Friday, 30th day of December, 2022 at 01:00 P.M. IST through Video Conference (VC)/ Other Audio Video Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars").
- financial year ended March 31, 2022 of the Company shall be sent to all the from the website of the Company www.icldairy.com.
- The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited('CDSL') and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 27th December, 2022 (09:00 A.M.) and end on 29th December, 2022 (05:00 P.M.) During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23rd December, 2022, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the
- The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain
- sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.

Place: Noida

Janak Puri, New Delhi - 110058

Corp. Office:8-2-293/BE. Plot No.32, Navanirman Nagar,

Jubilee Hills, Hyderabad - 500033

CIN:L74899DL1994PLC061107, Email Id: cmbldelhi@gmail.com

Website: www.cmbl.co.in, Tel. +91 9966099595

Notice is hereby given that the 28" Annual General Meeting of Corporate

Merchant Bankers Limited will be held on Friday 30" December 2022 at

10.00 A.M. at UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Janak Puri,

New Delhi, West Delhi - 110058 to transact business, as set out in Notice

The Annual Report for the financial year 2021-22, including the notice of

AGM, attendance slip, Proxy form etc has already been dispatched

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules,

2014, as amended and Regulation 44 of the SEB (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing

electronic voting (Remote e-voting) facility to the members to enable them

to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business given

in the Notice of AGM may be transacted through electronic voting facilities

E-voting commences on 27° December 2022 at 9:00 AM, and will end

at 29" December 2022 at 5:00 PM. and at the end of e-voting period,

the facility shall forthwith be blocked. During this period shareholder

of Company, may cast their vote electronically. The e-voting module

shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is

casted by the shareholders the shareholder shall not allowed to

Any person, who acquires shares of the Company and become

members of the Company after dispatch of AGM notice and holding

shares as on cut-off date i.e. Friday 23" December 2022 may obtain the login ID and password by sending request at

Members please note that, remote e-voting shall not be allowed

Members may note that-a) the facility for e-voting through ballot paper

shall be made available at the AGM and the members attending the

meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be

able to exercise their rights at the meeting through ballot paper, b) A

member may participate in the AGM even after exercising his right to

vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote at the

Aperson, whose name is recorded in the register of Members or in the

The Notice of 28"AGM is also available on

at the Download sections of http://www.evoting.com or contact CDSL

Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the

Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of

Members and Shares Transfer Books of the Company will remain closed

from Friday 23"December 2022 to Friday 30" December 2022 (both days

By order of the Board

Sukanya Pittala

DIN: 08146455

For Corporate Merchant Bankers Limited

Dated: 08.12.2022

inclusive) for the purpose of the 28" AGM of the Company

provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

through permitted route on Wednesday 7" December 2022.

convening AGM.

change it subsequently.

helpdesk.evoting@cdsindia.com

beyond 5.00 pm on 29" December 2022.

as well as voting at the AGM through ballot paper.

http://www.evotingindia.com

helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Book closure:

Date: 8" December 2022

Place: New Delhi

Date: 08/12/2022

### CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED Regd. Off: UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Regd. Off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019

Corporate Office: Trinity Tower, B-2, Sector-7, Noida, Uttar Pradesh -201301 Contact- 0120-4712802, website: www.trinitygroup.ind.in E-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in

### Notice of an Extra Ordinary General Meeting (EGM) It is hereby informed that an Extra Ordinary General Meeting (EGM) of

Trinity League India Limited will be held on Friday the 30" day of December 2022 at 12.00 PM. Through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out the Notice of the EGM only through e-voting facility.

electronically are provided in the Notice of the EGM. Notice of the EGM is being sent only through electronic mode to those

CDSL/ NSDL ("Depositories") and will also be available on the Stock Exchange i.e. at www.bseindia.com.

EGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services (P) imited, by sending mail on investor@beetalfinancial.com for the same along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy n case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical olio for obtaining the Notice of EGM and the e-voting instructions.

10:00 am and will end at 5.00 pm on 29th December, 2022. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on December 29, 2022. Facility for e-voting shall also be made available during the EGM to those Members who attend the EGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend/ participate in the EGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

through remote e-voting and e-voting at the EGM is Friday, December 23, 2022. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to investor@beetalfinancial.com to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of EGM.

change in their bank mandates to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members olding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. The Members holding shares in physical form are requested to advise any change in their bank mandate mmediately to Beetal House, 3rd Floor 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062. By Order of the Board of Directors,

For Trinity League India Limited

Date: December 08, 2022 Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi

punjab national bank ...the name you can BANK upon !

Place : Amroha

**Circle office:** Ramganga Vihar, Kanth Road, Moradabad

(Enforcement) Rules, 2002]

Authorized Officer, Punjab National Bank

POSSESSION NOTICE

[Under Rule 8(1) of Security Interest

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of the PUNJAB NATIONAL BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the

undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the PUNJAB NATIONAL BANK, for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured

asset, Details of properties where possession had been taken is as follows:

Sr. No.	Name of the Borrower/Guarantor/	Description of the Properties	Outstanding Amount	Date of Demand Notice
	Mortgagor/Branch Name	(Movable/Immovable)	u/s 13(2)	Date of Possession
1.	Borrower & Mortgagor:	1. Property Situated at Khasra No.: 467M, Amroha Inside Chungi, Mohalla-	Rs.	31.08.2022
	Smt. Dilshad Begum w/o Sh. Parveez Alam Branch : Amroha Main Branch	Eidgaaha Nagar, Tehsil & District-Amroha (UP), Area 13.00 sq.mtrs., (In the name of Smt. Dilshad Begum w/o Sh. Parveez Alam), Registered in Bahi No.: 1, Jild No: 4250, Pages: 365-378, Serial No.: 8871, Dated 14.06.2010, <b>Bounded as: North</b> : Plot of Mansoor Ahmad, <b>South</b> : Plot of Anwar, <b>East</b> : House of Raees-Ud-Din, <b>West</b> : Rasta 12 Feet Wide  2. Property Situated at Amroha Inside Chungi, Mohalla- Eidgaah Nagar, Tehsil & District - Amroha, (UP), Area 10.13 sq.mtrs., (In the name of Smt. Dilshad Begum w/o Sh. Parveez Alam), Registered in Bahi No.: 1, Serial No.: 3511, Dated 17.02.2020, <b>Bounded as: North</b> : Araji Vikreta, <b>South</b> : Araji Now Dilshad Begum, <b>East</b> : Araji Mohd. Nisha, <b>West</b> : Rasta 12 Feet Wide	9,62,994.80/- as on 30.08.2022 + int. & other charges	05.12.2022
2.	Borrower & Mortgagor :	[1] 전투 구역 (프로마 (1) 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		31.08.2022
	Sh. Mohd. Umar s/o Sh. Mumtaz Mohd. Yusuf & Sh. Mumtaz Khan s/o Sh. Julfikar (Co-Borrower & Mortgagor)  Branch: Amroha Main Branch  Naugawan Road, Amroha (U.P.), Area 30.75 sq.mtrs. (In the name Umar & Sh. Mumtaz Khan), Bahi No: 1, Zild No.: 8124, Pages: 13 No.: 4739, Dated 19.03.2016, Bounded as: North: Amroha to Naugawan Road, West: Rasta 4.57 Meter Wide,		29,77,201.32/- as on 30.08.2022 + int. & other charges	05.12.2022
3.	Borrower : M/s Raja Tent		Rs. 26,69,945.32/-	31.08.2022
Agencies & Sh. Vakil Ahma s/o Sh. Laeek Ahma (Proprietor & Mortgagor) Branch: Amroha Main Branch		Near Danish Mandan, Tehsil & District - Amroha (UP), Area 261.00 sq.mtrs., (In the name of Sh. Vakil Ahmad s/o Sh. Laeek Ahmad), Registered in Bahi No: 1, Jild No.: 1114, Pages: 219 - 221, Serial No.: 4852, Dated 24.08.1969,		05.12.2022

New Delhi

Notice is hereby given that the 09th Annual General Meeting (AGM) of the

- Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e, 23rd December, 2022. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 09th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail

- addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and selfattested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2021-22 along with AGM Notice by email to organicipo@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.
- closed from Friday, 23rd December, 2022 to Friday, 30th December, 2022 The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will be
- For and on behalf of

ICL Organic Dairy Products Limited, Roop Kishore Gola Director DIN: 02456413

The EGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the

provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020 April 8, 2020 and April 13, 2020) issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020 and Circular No. 02/2021 dates January 13, 2021 & Circular dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs. The instructions for joining the EGM

Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Company's website www.trinitygroup.ind.in and website of the Bombay flembers who have not registered their e-mail addresses, the Notice of

The remote e-voting period will commence from 27th December, 2022 at

he cut-off date for determining the eligibility of members for voting

register of Beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting In case of any queries, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at their tollfree no. 1800-200-5533 or Email ID

Members holding shares in electronic form are requested to intimate any

Piyush Kumar Srivastava

representation /attorney of the company and the receipt/counter foil of such deposit should reach to the said service provider or CH Bank by e-mail or otherwise by the said date and hard copy shall be submitted before the Recovery Officer-II, DRT-II, Mumbai on 12.01.2023 upto 4.30 p.m. In case of failure, bid shall not be considered. The successful bidder shall have to deposit 25% of his final bid amount after adjustment of EMD by next bank working day i.e. by 4.30 P.M. in the form of demand draft / pay order in favour of the 'Recovery Officer, DRT-II, Mumbai in R.P No. 61 of 2018 or directly by way of RTGS/NEFT in

between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. w.e.f. 10.01.2023 at the property site.

the Account No. 30043253890 with State Bank of India, Fort Market Branch, Mumbai, IFSC Code No: SBIN0005347 of Recovery Officer, DRT-II, at Mumbai. Once the bid is submitted it is mandatory for the bidder (s) to participate in the bidding process of the eauction by logging in on the e-auction agency portal, failing which the EMD shall be forfeited to the

Government, if the undersigned thinks fit, The purchaser shall deposit the balance 75% of final bid amount on or before 15th day from the date of sale of the property. If the 15th day is Sunday or other Holiday, then on the first bank working day

after the 15th day by prescribed mode as stated in para 6 above. In addition to the above, the purchaser shall also deposit poundage fee with Recovery Officer-IT, DRT-II@ 2% upto Rs.1,000/- and@ 1% of the excess of said amount of Rs.1,000/-through DD in favour of Registrar, DRT-II, Mumbai. In case of default of payment within the prescribed period, the deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or the amount deposited. The property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. Further the purchaser shall also be liable to make good of any shortfall or difference between his final bid amount and the price for which it is subsequently sold. The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" AND "AS IS WHAT IS BASIS".

No. of lots	Description of the property to be sold with the names of the co- owners where the property belongs to defaulter and any other person as co-owners.	assessed upon the	other encumbrance to	Claims, if any, which I been put forward to property, and any of known particulars bea on itsnature and val
1	2	3	4	5
1	Unitbearing Pvt.Nos.BA-5, BA-6, BA-7, BA-8 & BA-9 (all on lower ground floor) having the super built-up area ad measuring about 12025 sq. ft. forming part of the Commercial Complex known as 'M.G. Centrum', constructed on land bearing Khasra Nos.369 min, 370 min & 371/1 min	Not available	Mortgaged Property	Not available

Hauz Khas, New Delhi Given under my hand and seal on this 2nd day of December, 2022

situated in extended abadi (Lal

Dora) of Village Sultanpur, Tehsil



DRT II, Mumbai

Sunil K Meshram

Recovery Officer

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जोनल कार्यालय, ब्लॉक 4, प्लेट बी, भू तल, एनबीसीस<mark>ी,</mark> **ईस्ट किदबई नगर, नई दिल्ली-1100<mark>23</mark>** 

किराए पर परिसर चाहिए विज्ञापन दिनांक २७.११.२०२२ के लिए शृद्धिपत्र विवरण प्रकारित

मध विहार (जिला उत्तरी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली) मध् विहार (जिला पूर्वी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली) लाजपत नगर (जिला उत्तरी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली) लाजपत नगर (जिला दक्षिण पूर्वी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली)

न्यु अशोक नगर (जिला उत्तरी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली) न्यु अशोक नगर (जिला पूर्वी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली) बिड जमा करने की अंतिम तिथि— 15 12 2022 बिड जमा करने की अंतिम तिथि— 12.12.2022 अन्य शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी।

दिनांक : 08.12.2022, स्थान : दिल्ली

भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर पी ओ: बी गार्डन, हावड़ा ७१११०३ पश्चिम बंगाल. भारत

अस्थायी संकाय पदों के लिए वाल्क-इन इंटरव्यू

विज्ञापन. सं. आरओ/डीई/२२/०९ दिनांक : ०७.१२.२०२२ संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक इकाइयों के अस्थायी संकाय पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड, विशेषज्ञता और अन्य विवरण के लिए कृपया देखें www.iiests.ac.in

कुलसचिव

प्राधिकृत पदाधिकारी

OSBI

सर्वसमय माध्यम, कॉरपोरेट सेंटर, तीसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड केंद्र आर्केड, कफ परेड, मुंबई - 400 005 शुद्धिपत्र–III

आरएफपी नं. SBI/ACV/2022-23/003-A दिनांक: 04.11.2022 चरण 15 के अंतर्गत 6750 शाखा प्रबंधित कैपेक्स एटीएम की अधिप्राप्ति के लिए उपरोक्त आरएफपी के संदर्भ में एक शुद्धिपत्र जारी किया गया है और इसे बँक की वेबसाइट https://bank.sbi और पोर्टल https://etender.sbi/SBI/ पर अधिप्राप्ति समाचार के अंतर्गत देखा जा सकता है.

साथ ही बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय को 23.12.2022 को दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया गया है.

स्थान: मुंबई दिनांक: 09.12.2022

उप महाप्रबंधक (कार्यान्वयन व रोल आउट)

हस्ताक्षर/-

खण्ड -प्रथम बांसवाडा



भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर पी ओ: बी गार्डन, हावड़ा ७१११०३ पश्चिम बंगाल, भारत

आईआईईएसटी, शिवपुर का नौवां वार्षिक दीक्षांत समारोह विज्ञापन. सं. आरओ/डीई/२२/०७ दिनांक : ०६.१२.२०२२

आईआईईएसटी, शिवपुर का नौवां वार्षिक दीक्षांत समारोह शुक्रवार, १६ दिसंबर २०२२ को प्रातः ११.00 बजे से संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी सुविरानंद, माननीय कुलाधिपति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और महासचिव रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, दीक्षांत भाषण देंगे। डॉ. वासुदेव के. आत्रे, पूर्व महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (भारत सरकार) और रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार और अध्यक्ष, शासी मंडल, आईआईईएसटी, शिवपुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आईआईईएसटी, शिवपुर के निदेशक प्रो. पार्थसारथि चक्रबर्ती, स्वागत भाषण देंगे।

	कार्यालय	अधिशासी	अभियंता,	पीपलखुंट	हाई	लेवल	केनाल	परियोज
			खण्ड-	-प्रथम बांस	वाडा			
क्रमांक :-	अ अ /पीहाले	किपरि /खंप	_ बांस /२०२	2-23/2776-	-77			दिनांव

∥क्रमाकः :-	अ.अ./पाहालकपार./खप्र बास./2022-23/2//6-//	ादनाक -04.12.2022
	ई-निविदा सूचना संख्या ०५ वर्ष ३	2022-23
S. No.	Name of work	UBN No.
1	Construction of Chor Wala Nallah MST (Under TAD)	WRD2223WSOB02249
2	Raising and Renovatation of Bhojiya Karad M.S.T. (Under TAD)	WRD2223WSOB02250
3	Construction of WHS at Mohini wala Khora MST (Under TAD)	WRD2223WSOB02251

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से दिनांक 26.12.2022 को सांय 6.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा में वर्णित कार्य से संबंधित विवरण व अन्य शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in www.dipr.rajasthan.gov.in rajasthan.gov.in/wrd, http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

अधिशासी अभियंता पीपलखुंट हाई लेवल केनाल परियोजना DIPR/C/15568/2022

नंबर बी—133, सेक्टर XIV, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, आवासीय संपत्ति सं.बी—133, सेक्टर XIV, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के मालिक हैं और उनके कब्जे में हैं। श्री एस.सी.गोयल पुत्र श्री बी.आर.गोयल ने मूल आवंटन पत्र दिनांक 17.11.1981, कब्ज़ा पत्र दिनांक 09.08.1982,नोएडा प्राधिकरण, नोएडा द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण ज्ञापन दिनांक 25.07.1984 और श्रीमती वीना अरोड़ा पत्नी श्री जगदीश कुमार के पक्ष में बही नंबर 1 ज़िल्ड 143 पेज 354 ऐड बुक नंबर 1 ज़िल्ड 181 पेज 164/175 क्रमांक सं. 3630 / 3631 दिनांक 13.09.1982 के माध्यम से मकान धारक सं.बी–133, सेक्टर XIV, नोएडा ,गीतम बुद्ध नगर के संबंध में नोएडा प्राधिकरण, नोएडा द्वारा निष्पादित लीज डीड को खो दिया / गुम कर दिया है। श्री एस.सी.गोयल पुत्र श्री बी.आर.गोयल ने दिनांक 07.11.2022 को दिल्ली पुलिस में प्राथमिकी भी

श्री एस.सी.गोयल पुत्र श्री बी.आर.गोयल उक्त संपत्ति श्रीमती मोनिका सिंगला पत्नी श्री बीमा कुमार सिंगला अौर श्री बिमल कुमार सिंगला पुत्र श्री पी.एन. सिंगला को बेच रहे हैं।

उक्त मूल आवंटन पत्र दिनांक 17.11.1981, कब्जा पत्र दिनांक 09.08.1982, नोएडा प्राधिकरण, नॉएडा द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण ज्ञापन दिनांक 25.07.1984 और लीज डीड दिनांक 13.09.1982 के आधार पर किसी भी व्यक्ति (बैंकिंग / वित्तीय संस्थान / व्यक्ति) के पास किसी भी प्रकार का हित / दावा / शीर्षक / आपत्ति है तो वह इस प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि नोटिस अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उक्त संपत्ति को गैर–भारग्रस्त, विपणन योग्य माना जाएगा और मूल आवंटन पत्र दिनांक 17.11.1981, कब्जा पत्र दिनांक ०९.०८.१९८२, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा द्वारा जारी स्थानांतरण ज्ञापन दिनांक २५.०७.१९८४ और लीज डीड दिनांक 13.09.1982 के आधार पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विवेक सहगल, (एडवोकेट), II—एफ —4, नेहरू नगर, गाजियाबाद, 9811144654

# सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतेदद्धाया सूचना दी जाती है कि मैसर्स व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जिस का पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, टावर 1, वर्ल्डमार्क, सेक्टर 65, गुरुग्राम-122001 मे है।

नतीजतन दि स्टेट एनवायर्नमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (एसईआईएए), हरियाणा बे न0 55-58, पर्यटन भवन, सेक्टर-2, (हरियाणा), उनके फाइल संख्या एसईआईएए/एचआर/ 2022 / 252 और ईसी. पहचान संख्या ईसी22बी000एचआर110950 दिनांक 28/11/2022 द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रस्तावित अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी (DDJAY—2016 के तहत) में सेक्टर—76, मानेसर शहरी परिसर, गुरुग्राम, हरियाणा को प्रदान की है। यह एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस पत्र हरियाणा स्टेट पोल्लुशण कण्ट्रोल बोर्ड

पंचकूला और एसईआईएए पंचकूला में उपलब्ध है। मैसर्स व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड 10वीं मंजिल, टावर 1, वर्ल्डमार्क,

|स्थानः गुरूग्राम दिनांकः 09.12.2022

www.readwhere.com

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

सेक्टर 65, गुरुग्राम–122001



जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत कोटक मिहंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम्, 2002के नियम 3 के के साथ पठित धारा 13(12)तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं को उसी की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणी/सह—उधारकर्ता राशि का भगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं/सह—उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उस पर उल्लिखित तिथियों को शिल्क के साथ इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए कोटक मिहंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन करने पर संबंधित तिथियां से भविष्य में ब्याज, लागत और सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानो के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख नीचे दी गई है:

उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता का नाम और अचल संपत्ति का विवरण 1. कब्जे की तिथि 2. कब्जे का पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि प्रकार 3. मांग सूचना दिनांक 4. देय रती गार्डन कॉलोनी गांव बंथला परगना रतनपाल, सभी: 119, बंथला, लोनी, में स्थित प्लॉट नं. 121, क्षेत्रफल 182 वर्ग गज लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी यानी 152.17 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 323 3.29.08.2020 मिन, सम्पत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल। ऋण खाता संख्याः LNDEL10518-

संपत्ति की चौहद्दी : पूर्वः अन्य संपत्ति, 4.रु.5,42,656 / – (रुपये पांच लाख 190002005 पश्चिम:18 फीट सड़क, उत्तर: अन्य संपत्ति, बयालीस हजार छह सौ छप्पन स्वीकृत मात्र) 29.08.2020 तक बकाया एवं पन्द्रह हजार एक सौ नब्बे मात्र)। भुगतान तक लागु ब्याज । पत्नी श्री रतन पाल।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402) और श्री विवेक कनौजिया (+91 9205177091) से संपर्क करें। स्थान : गाजियाबाद दिनांकः 09.12.2022

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : v-23, मंदाकिनी एन्कलेव, अलकनन्दा, जीके $- ext{ II}$ , नई दिल्ली-110019कॉर्पोरेट कार्यालयः ट्रिनिटी टॉवर, बी-2, सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 संपर्क-0120-4712802, वेबसाइट : www.trinitygroup.ind.in

ई-मेल: trinityleague@trinitygroup.ind.in असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना

रतद्वारा सूचना दी जाती है कि ईजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन–देन हेतु ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) केवल ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') द्वारा शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे आयोजित

कम्पनी अधिनियम २०१३ तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई. २०२०, ८ अप्रैल, २०२० तथा १३ अप्रैल, २०२० एवं सेबी परिपत्र दिनांक १२ मई, २०२०,परिपत्र सं. ०२६२०२१ दिनांक १३ जनवरी, २०२१ और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई, 2022 के अनुपालन में ईजीएम केवल वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईजीएम में शामिल होने के निर्देश ईजीएम की सूचना में प्रावधानित हैं।

ईजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई–मेल पते कम्पनी या सीडीएसएलध्एनएसडीएल (डिपॉजिटरी) के साथ पंजीकृत हैं और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.trinitygroup.ind.in तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं और परिणामस्वरूप उनके पास ईजीएम की सूचना तथा ई–वोटिंग के निर्देशों नहीं भेजी जा सकी है, वे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ई—मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन तथा क्लाइंट मास्टर की स्वप्रमाणित प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण–पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित निवेदन की स्कैन्ड प्रति कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड के पास investor@beetalfinancial.com पर भेज दें तािक वे ईजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग के निर्देश प्राप्त कर सकें।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 27 दिसंबर, 2022 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और 29 दिसंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात वोटिंग हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा अर्थात 29 दिसंबर, 2022 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध कराई जायेगी जो ईजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम से पूर्व अपना मतदान कर लिया है वे भी वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

रिमोट ई–वोटिंग तथा ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 दिसंबर, 2022 है। कोई व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अपना मतदान करने के लिए investor@beetalfinancial.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग करने की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम की सूचना में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचना अपने डिपॉजिटरी भागीदारों को सूचित करें जिनके द्वारा उनके डीमैट खाते अनुरक्षित किये जा रहे हैं। कम्पनी अथवा इसका आरटीए बैंक विवरण या बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से सीधे किसी निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ऐसे परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी भागीदारों के पास ही परामर्शित होने हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचना बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉाीिपंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुखदास मन्दिर, नई दिल्ली-110062 के पास भेजें। निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

पीयूष कुमार श्रीवास्तव

कापरिट मचेट बैक्स लिमिटेड रजि. कार्यालय : यूजी–24, विश्वदीप टॉवर, जिला केंद्र, जनक पुरी, नई दिल्ली–110058 कॉर्पोरेट कार्यालयः 8-2-293 / बीई. प्लॉट नं.32, नवनिर्माण नगर, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033 सीआईएन : L74899DL1994PLC061107,

ईमेल आईडीः cmbldelhl@gmail.com वेबसाइटः www.cmbl.co.in, फोन नं. +91 9966099595

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड की 28वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे, यूजी–24, विश्वदीप टॉवर, जिला केंद्र, जनक पुरी, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली – 110058 में एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित किए गए अनुसार कार्यवाही निष्पादित करने के लिए

वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म आदि को बुधवार 7 दिसंबर 2022 को अनुमत मार्ग से पहले ही भेज कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथासंशोधित के साथ

पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 , और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा प्रदान कर रही है। तदनुसार, एजीएम के नोटिस में दी गई कार्यवाही की मदों का निष्पादन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

1. ई—मतदान 27 दिसंबर 2022 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और 29 दिसंबर 2022 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी और ई–मतदान की अवधि के अंत में, सुविधा तुरंत बंद कर दी जाएगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। ई-वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद वोटिंग के लिए अक्षम हो जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद शेयरधारक को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 को शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdsindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। 3. सदस्य कृपया ध्यान दें कि 29 दिसंबर 2022 को शाम 5.00 बजे के बाद रिमोट

2. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम नोटिस

ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1. सदस्य ध्यान दें कि— क) बैलेट पेपर के माध्यम से ई—वोटिंग की सुविधा एजीएम

में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैलेट पेपर के माध्यम से बैठक में अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। ख) कोई सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी 5. एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए

. लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख के अनुसार दर्ज है, केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ बैलेट पेपर के जरिए एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

6. 28वीं एजीएम की सूचना http://www.evotingindia.com भी उपलब्ध है। 7. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप http://www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या सीडीएसएल के टोलफ्री नं. 1800–200–5533 या ईमेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क कर सकते हैं।

रतदद्वारा पुनः सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सुचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएँ कंपनी के 28वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए शुक्रवार 23 दिसंबर, 2022 में शुक्रवार 30 "दिसंबर 2022 (दोनों दिन सहित ) तक बंद रहेगी ।

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते कॉर्पोरेट मर्चेंट बेंकर्स लिमिटेड सकन्या पित्तला निदेशक डीआईएनः 08146455

दिनांकः 8 दिसंबर 2022 स्थान : नई दिल्ली



तदद्वारा सुचित किया जाता है कि प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों हेतू सरकारी वेभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / प्राधिकरणों / परिषदों / नगर निकायों में अर्ह 'बी' श्रेणी में पंजीकृत फर्मों ∕ ठेकेंदारों से ई−निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई−निविदा के माध्यम से आमन्त्रित की जाने वाली निविदा सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है–

करमं की निविदा निविदा प्राप्त निविदा सपम पत्रों की

1.4		( ताख में)	तिथि व समय	तिवि व समव	तिथि व समय	करने की ति व समव
a	Maintenance of C.F.C. Building, Boundary wall and Approach Road at A. Surajpur site-B Distt, 3.B.Nagar.	25.91	.09/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	04/01/20

अंकित करें। अलग से कोई कर देय नहीं होगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की website:www.upsidc.com पर स्थित ई-लिंक एवं यूपीएलसी की website: www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), उ०४०रा०औ०वि०प्रा० निर्माण खण्ड-२, कासना गौतमबुद्ध नगर

उम्माद हाउासग फाइनस प्राइवट लिामटड पंजीकृत कार्यालयः 318, डीएलएफ मैगनोलियास, सेक्टर -42, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम (हरियाणा) 122002 और कॉपोरेंट कार्यालयः यूनिट 809-815, 8वीं मंजिल, टॉवर-ए, ईएमएएआर डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर- 61, गुरुग्राम - 122002 (हरियाणा), सीआईएन: U65922HR2016PTC057984 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय संपत्तियों के

प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सचना एतह्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सरक्षित लेनदार को गिरवी ६ चार्ज की गई है जिसका भौतिक कब्जा मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 29.11.2022 को कर लिया गया है, यूएचएफपीएल (UHFPL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, कंपनी के बकाया की वसूली के लिए दिनांक

16.01.2023 को "जहाँ है जैसा है", " जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" पर बिक्री की जायेगी। जात भार के साथ, यदि कोई हो- अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति का विवरणःग्राम महरौली, परगना डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित खसरा नंबर 1056 में शामिल प्लॉट नंबर 15 पर निर्मित, पहली मंजिल (फ्रांट एलएचएस) पर आवासीय निर्मित फ्लैट नंबर–एफ–एफ3 पर स्थित संपत्ति का समस्त टुकड़ा और अंश, संपत्ति निम्नानुसार परिबद्ध है:– पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम : प्लॉट नंबर 16,उत्तर :20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण : अन्य प्लॉट मालिक।

उधारकर्ताध्ओं और गारंटर (ओं) का नाम और पता	1.नीलामी की तिथि और समय 2.ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	1.आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी 3.बोली वृद्धि
1. कोमल पत्नी सुनील शर्मा 2. सुनील शर्मा पुत्र सुल्तान सिंह शर्मा, दोनों का निवास स्थान:—एमआईजी, 3 एफएफ, प्लॉट नंबर 15 पीआर एन्क्लेव महरौली गाजियाबाद, यूपी 201001, इसके अलावा:—पहली मंजिल (फ्रंट एलएचएस) पर आवासीय निर्मित फ्लैट नंबर एफ—एफ3, प्लॉट नंबर 15 पर निर्मित,खसरा नंबर 1056 में शामिल,गांव महरौली, परगना डांसना, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी. लैन सं. LXGHZ02918&190003429 कुल	देय राशिः 05.12.2022 के अनुसार <b>रु.1,471,</b>	आर <b>क्षित मूल्यः</b> रुपये  14,26,000/- धरोहर जमा राशिः रु  1,42,600/- बोली वृद्धि — रु. 15,000/- इ ऐसे गुणांकों में।

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटे दिनांक: 09.12.2022

UMMEED 9X2PRN(41)

[ देखें विनियमन-15(1)(ए)]16(3) ऋण वसुली अधिकरण, चंडीगढ़ (डीआस्टी-2)

मामला सं.: ओए/1276/2020 ऋण वसुली अधिकरण ( प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत

1ला तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर- 17ए,

चंडीगढ ( 3रे एवं 4थे तल पर भी स्थान

मै. ग्रीन बाट टेक्नो सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड

एक्जि नं. : 14686

1. मै. ग्रीन बाट टेक्नो सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड

कॉर्पोरट कार्यालय : 456,3रा तल, टावर बी, पालम कॉपोर्रेट प्लाजा, पालम विहार, गुरुग्राम तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय है सी-78, संजय ग्राम, गुरुग्राम . **राजीव परासर**, पुत्र हरि कृष्ण पराशर, निवासी

#605, 1ला तल, सी-1, पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा, गुड़गाँव, हरियाणा, गुड़गांव, हरियाणा जैसा कि ओए/1276/2020 दिनांक 11-11-2022 को

माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सचीबद्ध किया गया था। जैसा कि माननीय अधिकरण रु. 35,63,847.66 ्रू.-पैंतीस लाख तिड़ेसठ हजार आठ सौ सैतालिस

पैसे छियासठ मात्र) के ऋणों की वसूली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर समन्स / सूचना सहर्ष जारी किया है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसा प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है। i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दशाएँ की मांगी गई राहतों को क्यूं न स्वीकार की जाए ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उद्घाटित करन iii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे 'लम्बित होने की स्थिति में मुल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको वंचित किय

vi) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभृति हित निर्मित है एवं/ अथवा मल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे। आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथव प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभृति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जमा करने के लिए

उत्तरदायी होंगे। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तुत करें तथा 13.4.2023 को 10.30 को पूर्वा मं रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी . मेरे हाथ से तथा अधिकरण की महर लगाकर आज दिनांक 02.12.2022 को दी गई।

> रजिस्ट्रार आई/सी डीआरटी-II, चंडीगढ़

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, अति अल्पकालिक ई-निविदा आमंत्रण सूचना, अनुभवी कार्यदायी संस्थाओ / फर्मी से इस कार्यालय के नियन्त्रणाधीन विभिन्न पारेषण खण्डों के अन्तर्गत निम्नलिखित ई–निविदाऐ ई–पोर्टल हेतु etender.up.nic.in पर आंमत्रित की जाती है। ई–निविदा खुलनें की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगले कार्यी दिवस मे खोली जायेगी। ई-निविदाओं को कोई कारण अस्वीकार / विभाजित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा कृपया विस्तृत जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया etender.up.nic.in पर लॉग आन करें। विवरण निम्न प्रकार है– ई–निविदा संख्या, कार्य का विवरण, कार्य की अनुमानित लागत, ई-पोर्टल पर निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एव समय, ई–पोर्टल पर निविदा का प्रथम भाग खोलने की तिथि एवं समय, धरोहर राशि एवं निविदा का मूल्य (जी०एस०टी० सहित) के क्रम में पढ़ा जाये। 1- ETC/MU/T-105/2022-23 :- विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत मैसर्स स्वरूप स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० भण्डूर, मुजफ्फरनगर को भार ३५००० के0वी0ए0 भार अवमुक्त करने के लिये 132 के0वी0 लाईन के सर्वे का कार्य। रू0 0.50 लाख। दिनांक 15.12.2022 सायः 17:00 बजे तक, दिनांक 16.12.2022 12:00 बजे,रू0 500 / −, रू. 295 / − | **2- ETC/MU/T**-106/2022-23 :- विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र जसाला का 01 माह के लिये अनुरक्षण कार्य रू० ०.६३ लाख। दिनांक १५.१२.२०२२ साय 17:00 बजे तक, दिनांक 16.12.2022 12:00 बजे, रू0 630/-, रू. 295/-। **3**-ETC/MU/T-107/2022-23 :- विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र, कैराना का 01 माह के लिये परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य। रू० 1.80 लाख। दिनांक 15.12.2022 सायः 17:00 बजे तक, दिनांक 16.12.2022 12:00 बजे, रू0 1800 / —, रू. 590 / —। **अधीक्षण अभियन्ता,** विद्युत पारेषण मण्डल, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, फोन नं०:-0131-2608038 पत्रांक / No. 125. 125. 2390/वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर (MZN)/ दिनांक / DATED 07-12-2022

## शस्त्र प्रभाग

प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं.-4, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

सार्वजनिक सूचना

एआरसी / अनुमति प्राप्त अन्तरितियों(ट्रांसफरी) को आस्ति का अंतरण ''पंजाब नैशनल बैंक, एआरसी/अनमति प्राप्त अन्तरितियों (टांसफरी) आदि को 1 एनपीए खाता के अंतरण का प्रस्ताव देता है। विवरण के लिए कृपया बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Public-Notices.aspx पर 'सार्वजनिक सूचना' भाग देखें।''

pumab national bank पंजाब नैश्रग्न बैंक

> ईएक्सएच. ३४ रजिस्टर्ड एडी/दस्ती/चिपकाने/ड्रम बजाने एवं

प्रकाशन / डीआरटी के सूचना-पट द्वारा बिक्री उदघोषणा कार्यालय वसूली अधिकारी—।,

ऋण वसली अधिकरण-।।, मम्बर्ड एमटीएनएल भवन, तृतीय तल, कोलाबा मार्केट, कोलाबा, मुम्बई

ओडब्ल्यू नं. एमडीआरटी-907/2022 दिनांक : 06-12-2022

आर.पी. नं.: 61 / 2018

ऋण वसली तथा दिवालिया अधिनियम 1993 के साथ पठित आय कर

दिनांक : 02-12-2022

अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत विक्रय की उदघोषणा बैंक ऑफ बड़ौदा, बांद्रा (पू.) शाखा )....प्रमाणपत्र धारकगण

मैसर्स एजल टेडिंग एंड इंवेस्टमेंटस प्रा. लि. एवं अन्य )....प्रमाणपत्र देनदारगण सीडी-1: मैसर्स एजल ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट प्रा. लि., एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 27, साइन वंडर मॉल, भूतल, कपूरबावड़ी, घोड़बंदर मार्ग, ठाणे (पश्चिम) 400610 में स्थित है

सीडी-2: श्री प्रदीप पालीवाल, निवासी : बी-9/13, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057 सीडी-3: श्री शिव कुमार यादव, निवासी : 96/3, हुमांयूपुर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029 सीडी-4: श्री पवन कुमार यादव, निवासी : 1'1 तल, किरण नर्सिंग होम, बस स्टैंड के निकट, किशनगढ़ 30580 जबिक, माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–।।, मुम्बई ने प्रमाणपत्र देनदारों से ब्याज सहित्

और वसूली प्रमाणपत्र / डिक्री के अनुसार भावी ब्याज एवं शुल्कों सहित रु. 40,57,57,995.00 (बिक्री की तिथि अर्थात 17-01-2023 तक) की एक राशि वसूली योग्य है। और जबिक अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त प्रमाणपत्र से संतुष्ट होकर निम्न अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय क

रु. 10,02,85,664.00 की वसूली के लिए मूल आवेदन सं. 150 ऑफ 2014 के तहत वसूली प्रमाणपत्र आहरित किया

और जबकि, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात् 13-02-2014 से भुगतान तथा/अथवा सीडी से वसूली होने तव मासिक शेषों सहित 15.75: वार्षिक की दर पर वादकालीन (पेंडेंट-लाइट) एवं भावी ब्याज के साथ रु. 10,02,85,664.00 एतदद्वारा सचित किया जाता है कि किसी स्थगनादेश के अभाव में उक्त संपत्ति का विक्रय ई–नीलामी द्वारा 17–01–202 को 2.00 बजे अपराह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच (आवश्यकतानुसार, बन्द होने से पूर्व संविदा के मामले में अन्तिर

5 मिनटों के स्वतः समय-सीमा विस्तार सहित) किया जाएगा तथा बोलीदान; मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लिमिटेड बी-704, वाल स्ट्रीट-।।, ओरिएंट क्लब के सम्मुख, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380 006 गुजरात (भारत), दुरभाष सं. 079—68136841/55/51, 079—68136800 की वेबसाइव https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान'' द्वारा किया जाएगा। संपर्क हेर व्यक्तिः श्री प्रवीण कुमार थेवर (मोबइल नं. 91 9722778828), ईमेल पता– praveen.thevar@auctiontiger.ne या support@auctiontiger.net; अधिक विवरणों के लिए इनसे संपर्क करें : श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक महा प्रबंधक, मोबाइल : 9930332386

यह बिक्री नीचे अनुसूची में उल्लिखितानुसार उपर्युक्त नाम के सीडी की सम्पत्ति की होगी और उक्त सम्पत्ति से सम्बद् दायित्व तथा दावे, अब तक जैसा भी उनका निर्धारण किया गया है, वे हैं जो प्रत्येक लॉट / सम्पत्ति के सम्मुख अनुरू संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट्स में बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एव हिस्से की बिक्री से प्राप्त हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तरंत रोक दी जाएगी। बिक्री को तब भी रोक दिय

जावेगा. यदि किसी भी लॉट को रखने से पहले. उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया. ब्याज लागत (बिक्री की लागत

ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और लागतों का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो बिक्री के संबंध में हालांकि कोई कर्तव्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निभा रहा वह बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयार नहीं कर सकता। बिक्री जो होगी वह आय कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहर बनाए गए नियमों और आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्नित अनसची में विनिर्दिष्ट विवरण हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किये गर्

हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में हुयी किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे . आरक्षित मुल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी, **रु. 3,79,44,000/— (रुपये तीन करोड़ उन्यासी** जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है, वह **रु. 3,00,000/ – (केवल तीन लाख रुपये)** के गुणक में होगी। बोली की

राशि या बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थित में. लॉट को एक बार फिर से नीलामी के लि . सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेव

पर निर्भर होगा कि वह उस स्थिति में उच्चतम बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर दे, जब प्रस्तावित कीमत स्पष रूप से इतनी अपर्याप्त हो कि बोलीदान करना अनुचित प्रतीत हो। एतदृद्वारा उक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए आम जनता को आमंत्रित किया जाता है। प्रस्तावों **ए.** 37,94,400/— (रुपये सैंतिस लाख चौरानबे हजार चार सौ मात्र) की धराज राशि के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसचित बैंक के डिमांड डाफ्ट / पे—ऑर्डर के साथ एक मोहरबंद लिफाफे में रखकर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के पार 12-01-2023 को अप. 4.30 बजे तक जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर "आर.पी. नंबर 61 ऑफ 2018 व अंतर्गत वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, मुंबई" के पक्ष में के आहरित किया जाना चाहिए। असफल बोलीदाताओं व उपरोक्त राशि / डिमांड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर केवाईसी दस्तावेजों के उचित सत्यापन / प्रस्तुति के बाद वापस कर दिये जायेंगे ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ टैन / पैन कार्ड, पते का प्रमाण, डिमांड ड्राफ्ट / पे—ऑर्डर की सत्यापित फोटोकॉपी अपलोर्

करनी होगी। धराज और अन्य जानकारी/विवरणों के साथ ऑनलाइन प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तिथि

12-01-2023 को अप. 4.30 बजे तक है। संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण **10-01-2023 को प्रातः 10.00 बजे से सार** 5.00 बजे के बीच संपत्ति स्थल पर किया जा सकता है। बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाइल नं. तथ यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधानों की ओर से बोली कर रहे हों तो उदघोषणा जमा की जाएगी। बाद के मामत में उन्हें अपना प्राधिकार जमा करना होगा और ऐसा करने में चूक होने पर उनकी बोलियां निरस्त कर दी जायेंगी कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित संकल्प की प्रति अथवा कंपनी के अभिवेदन / मुख्तारना की पृष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज तथा ऐसे जमा की रसीद/काउंटर फाइल, उपरोक्त सेवा प्रदाता अथव सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य माध्यम से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उक्त प्रति/फाइल की वास्तविव प्रति, वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।, मुम्बई के पास 12-01-2023 को 4.30 बजे अप. तक जमा की जायेगी

ऐसा करने में विफलता की स्थिति में बोली विचारणीय नहीं होगी। सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25%, धराज के समायोजन के बाद, डिमांड ड्राफ्ट/पे–ऑर्ड के रूप में "वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, मुंबई के पक्ष में, 2018 के आर.पी. नंबर 61" में या सीर आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, मुम्बई के खाता संख्या 30043253890 में स्टे बैंक ऑफ इंडिया, फोर्ट मार्केट ब्रांच, मुंबई, आईएफएससी कोड नंबर: SBIN0005347 में अगले बैंक कार्य दिवस अर्था

एक बार बोली प्रस्तुत करने के बाद बोलीदाता(ओं) के लिए ई-नीलामी एजेंसी पोर्टल पर लागिंग करके ई-नीलामी की बोलीदान प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर, यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता उचित समझते हैं, तो धरार

क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वें दिन अवकाश या रविवार होता तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 6 में वर्णितानुसार निर्धारित माध्यम में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर पर तथ रु. 1000 / – की उक्त राशि से अधिक राशि पर 1: की दर से दांडिक शुल्क भी रजिस्ट्रार, डीआरटी – ।।, मुम्बई व पक्ष में आहरित डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।। के पास जमा करना होगा। नेधरित अवधि के भीतर भुगतान में चूक के मामले में, जमा राशि, बिक्री व्ययों को चुकाने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरकत

को उचित लगे, तो सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है और चूककर्ता क्रेता जो है वह संपत्ति या जमा की गः राशि के सभी दावों से वंचित रहेगा। बिक्री की नई उदघोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा इसके अलावा, क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि और बाद में बेची जाने वाली कीमत के बीच की किसी भी कमी या अंत संपत्ति की बिक्री **"जैसी है जहां है आधार" तथा "जैसी है जो है आधार"** पर की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाए जाने पर उसे/उन्हें अस्वीकार

लॉट्स की सं.		संपत्ति अथवा उसके किसी भाग पर मूल्यांकित राजस्व	भारग्रस्तता के के विवरण	संपत्ति हेतु अग्रसारित किया गया है, तथा
1	2	3	4	5
1	यूनिट प्रा. नं. बीए—5, बीए—6, बीए—7, बीए—8 एवं बीए—9 (सभी निम्न भूतल पर) जिनका अधि निर्मित क्षेत्राधिमापन लगभग 12025 वर्ग फुट है जो वाणिज्यिक परिसर 'एम.जी. सेंट्रम' के रूप में विदित है, के भाग के रूप में निर्मित है, जिसका निर्माण उस भूमि पर हुआ है जो खसरा सं. 369 मिन., 370 मिन. एवं 371/1 मिन. पर है जो ग्राम सुल्तानपुर की विस्तारित आबादी (लाल डोरा), तहसील		बंधककृत संपत्ति	अनुपलब्ध

आज दिनांक 02 दिसंबर 2022 को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अंतर्गत निर्गत की गयी है।

सुनील के. मेशरा वसूली अधिकारी डीआरटी ।।, मुंबई

## **OSBI**

**भारतीय स्टेट बैंक** तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-।, रिटेल प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत — दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से — प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूपए की बकाया राशि की वसूली हेत् नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार(बी) / गारंटर(रॉ)(जी) का नाम एवं पता	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रमारित प्रतिभूति का पता (सम्पत्ति का भौतिक/सांकेतिक कब्जा)	धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	जिसकी वसूली हेतु सम्पत्ति बेची जा रही है	संपर्क हेतु व्यक्ति का नाम और नं.	इ-नीलामा की तिथि प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समयः
			হ. 34.12 লা <b>ভ্র</b>	श्री अशोक कुमार	28-12-2022	27-12-2022
ग्राम–ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, जिला– १			प्लस भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि	मा. न. 8003893608	दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक	पूर्वाह 11.00 बजे से अर्पाह 03.00 बजे तक
		₹ 0.10 लाख				
श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और	सम्पत्ति नं. जी–129, जी ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली–110092,	₹ 625.00 लाख	হ. 624.48 লা <b>ख</b>	श्री अशोक कुमार	28-12-2022	27-12-2022
			ALL DOLLARS OF THE WAY OF THE PROPERTY OF THE	000 a 200 kg ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	दोपहर 12.00 बजे से	पूर्वाह 11.00 बजे
दिल्ली—110092	चंदर प्रकाश के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 1.00 लाख	ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि		अपा. 04.00 वज तक	से अपींह 03.00 बजे तक
	गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता  श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री बासुदेव राम, फ्लैट नं. डी—404, तृतीय तल, राज रिट्रीट—1, ग्राम—ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, जिला— गाजियाबाद, यू.पी.  श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश, जी — 128, जी ब्लॉक, प्रीत विहार,	गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता  श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री बासुदेव राम, फ्लैट नं. डी—404, तृतीय तल, राज रिट्रीट—1, ग्राम—ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, जिला— गाजियाबाद, यू.पी.  श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश, जी — 128, जी ब्लॉक, प्रीत विहार,	गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता  श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री बासुदेव राम, फलैट नं. डी—404, तृतीय तल, राज रिट्रीट—1, ग्राम—ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, जिला— गाजियाबाद, यू.पी.  श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश, जी — 128, जी ब्लॉक, प्रीत विहार,	गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता  श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री बासुदेव राम, फलैट नं. डी—404, तृतीय तल, राज रिट्रीट—1, ग्राम—ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, जिला— गाजियाबाद, यू.पी.  श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्री सापित नं. जी—129, जी ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली—110092, जी — 128, जी ब्लॉक, प्रीत विहार, प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)  र 1.00 लाख चंराल, आकरिमक	गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता  आवृत्त प्रमारित प्रतिभूति का पता (सम्पत्ति का भौतिक / सांकेतिक कब्जा)  श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री बासुदेव राम, पलैट नं. डी—404, तृतीय तल, राज रिट्रीट—1, प्राम—ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, जिला— गाजियाबाद, यू.पी.  श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निघि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश, जी — 128, जी ब्लॉक, प्रीत विहार, जी — 128, जी ब्लॉक, प्रीत विहार, जिला— प्राम के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)  श्रीमती निघि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश, जी — 128, जी ब्लॉक, प्रीत विहार, जिला— प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निघि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश, जी विहार, प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निघि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश, जी नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)  श्रीमती निघि तनेजा पत्नी श्रीचंदर प्रकाश, जी नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)  श्रीमती निघि तनेजा पत्नी श्रीचंदर प्रकाश, जी नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)  श्रीमती निघि तनेजा पत्नी श्रीचंदर प्रकाश, जी विहार, प्रकाश के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)  श्रीमती निघि तनेजा पत्नी श्रीचंदर प्रकाश, जी नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता  अवृत्त प्रमारित प्रतिसृति का पता (सम्पत्त का भौतिक / सांकेतिक कब्जा)  अवृत्त प्रमारित प्रतिसृति का पता (सम्पत्त का भौतिक / सांकेतिक कब्जा)  अवृत्त प्रमारित प्रतिसृति का पता (सम्पत्त का भौतिक / सांकेतिक कब्जा)  वृद्धि राशि वेद्यी जा रही है  अत्र अ.4.12 लाख दिनांक 30-09-2022 तक प्रलस भविष्य का व्याज, आकरिमक खर्चे इत्यादि  अविवर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्री बंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमति विहार, जिला—10092  अविवर प्रकाश के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)  अव्यक्त प्रमारित प्रतिसृति का पता (सम्पत्ति का पता सूल्य का 10%) वृद्धि राशि वृद्धि राशि वृद्धि राशि वृद्धि राशि वृद्धि राशि हेतु सम्पत्ति

ई-नीलामी हेत् नियम व शर्तै:-

ı. ई—नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक वेबपोर्टल https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्ते आदि निविदा दस्तावेज ibapi के ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उपलब्ध है 2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(याँ) पर कोई प्रभार नहीं है। तथापि इच्छ्क बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(याँ) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(याँ) को प्रभावित करने वाले दावाँ /

अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनवद्धता / प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा। सम्पत्ति(यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो / ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 3. इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री-बिंड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही

बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें। 4. यह ई—नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्निनर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी।

5. ई-नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों https://ibapi.in पर प्रकाशित की गई है।

दिनाक 09-12-2022, स्थान : नई दिल्ली हस्ता0/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक COURT NOTICE JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments ittp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Ltd

Masoom Ali CNR NO: PBLD03-002952-2019 Date: 17-01-2023 Publication Issued To: Masoom Ali Address- R/o A 41 A Block Ghroli Dairy Farm, Delhi

Whereas it has proved to the satisfaction

of this court that you, the above named accused /accused persons can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 17-01-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_ notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

## "IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.